



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 350 ]  
No. 350]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 18, 1978/आषाढ़ 27, 1900  
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 18, 1978/ASADHA 27, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1978

का० आ० 454 (अ).—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने, भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 56(अ)/18क/उवि० वि० अ/75, तारीख 23 जनवरी, 1976 द्वारा, उक्त आदेश के पैरा 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति निकाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् पूर्व बोर्ड कहा गया है) को अमृतसर शूगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, अमृतसर (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त कारखाना कहा गया है) का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था।

और पूर्व बोर्ड ने, 12 सितम्बर, 1979 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए प्रबन्धग्रहण कर लिया है, और वह केन्द्रीय सरकार के इससे पहले उसे समाप्त कर देने के अधिकार के अधीन रहते हुए, पद धारण करता रहा है।

और केन्द्रीय सरकार यह आवश्यक समझती है कि पूर्व बोर्ड की नियुक्ति समाप्त कर दी जाए और उसके स्थान पर इस आदेश के पैरा 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति निकाय का प्रबन्ध बोर्ड के रूप में प्राधिकृत किया जाए।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में पूर्व बोर्ड की नियुक्ति को समाप्त करती है और उसके स्थान पर इस आदेश के पैरा 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति निकाय को, निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों

के अधीन रहते हुए, उक्त कारखाने के प्रबन्ध-बोर्ड के रूप में निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

- (i) बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करेगा,
- (ii) बोर्ड 12 सितम्बर, 1979 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पद धारण करेगा,
- (iii) केन्द्रीय सरकार, बोर्ड या बोर्ड के किसी सदस्य की नियुक्ति को, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो, पहले भी समाप्त कर सकती है।

2. प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्

सदस्य

1. डा० एन० सी० बी० नाथ, निदेशक (आणिज्य), स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, 14वीं मंजिल, हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001.
- सदस्य
2. श्री पी० सुब्रह्मण्यम्, अ० भा० से०, मुख्य निदेशक (वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय) नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. श्री सी एल० खोगानी, प्रबन्धक, इण्डस्ट्रियल रीकन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली।
4. श्री बी० एल० के० मलहोत्रा, मुख्य कार्यापालक सदस्य, गणेश फ्लोर-मिल्स कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली।
5. नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग नई दिल्ली का आन्तरिक वित्त सहायक।
6. श्री ओम प्रकाश जैन, 63, दरियागंज, नई दिल्ली।
7. श्री विजयपाल सिंह, ई/10 ए-ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।

8. श्री वी० आर० माहेश्वरी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 2-बी, कमिश्नर लेन, अलीपुर रोड, नई दिल्ली।
9. श्री चरती लाल गोयल, अधिवक्ता, सदस्य महानगर परिषद, दिल्ली, 477 रूप नगर, दिल्ली।
10. श्री आर० जी० राजाध्याक्ष, ई-99, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली।
11. श्री एन० एम० शेट्टी, कार्यपालक सदस्य (तकनीकी) गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली।

[सं० एफ 4/3/74-सी यू सी]  
पी० सी० नायक, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

#### ORDER

New Delhi, the 18th July, 1978

**S.O. 454(E).**—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government, in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development Order No. S.O. 56(E)/18AA/IDRA/75 dated the 23rd January, 1976 authorised the body of persons referred to in paragraph 2 of the aforesaid order (hereinafter referred to as the earlier Board) to takeover the management of the Amritsar Oil Works, Amritsar a factory of the undertaking known as Amritsar Sugar Mills Company Limited, Amritsar (hereinafter referred to as the said factory);

And whereas the earlier Board tookover the management for a period upto and inclusive of 12th September 1979 and have been holding office as such subject to the right of the Central Government to terminate the same earlier.

And whereas the Central Government considers it necessary to terminate the appointment of the earlier Board and to authorise instead the body of persons referred to in paragraph 2 of this Order as the Board of Management;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby terminates the appointment of the earlier Board as authorised person and authorises instead the body of persons referred to in paragraph 2 of this Order as the

Board of Management of the said factory subject to the following terms and conditions, namely :—

- (i) The Board shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;
- (ii) the Board shall hold office upto and inclusive of 12th September, 1979;
- (iii) the Central Government may terminate the appointment of the Board or of any of the persons comprising the Board earlier, if it considers necessary to do so.

2. The Board of Management shall consist of the following, namely :—

#### CHAIRMAN

1. Dr. N. C. B. Nath, Director (Commercial), Steel Authority of India Limited, 14th Floor, Hindustan Times House, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-1.

#### MEMBERS

2. Shri P. Subrahmanyam IAS, Chief Director (Directorate of Vanaspathi Vegetable Oils and Fats) Department of Civil Supplies and Cooperation, New Delhi.
3. Shri C. L. Logani, Manager, Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, New Delhi.
4. Shri L. K. Malhotra, Chief Executive Member, Ganesh Flour Mills Company Limited, New Delhi.
5. Internal Financial Adviser of the Department of Civil Supplies and Cooperation, New Delhi.
6. Shri Om Prakash Jain, 63, Darya Ganj, New Delhi.
7. Shri Vijaipal Singh, E/10A, East of Kailash, New Delhi.
8. Shri B. R. Maheshwari, Chartered Accountant, 2-B, Commissioner Lane, Alipur Road, Delhi.
9. Shri Chartilal Goyal, Advocate, Member, Metropolitan Council, Delhi, 477, Roop Nagar, Delhi.
10. Shri R. G. Rajadhyaksha, E. 99, Greater Kailash I, New Delhi.
11. Shri N. M. Shetty, Executive Member (Technical) Ganesh Flour Mills Company Limited, Delhi.

[No. F. 4/3/74-CUCI]

P. C. NAYAK, Jt. Secy.